

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 109]

भोपाल, रविवार, दिनांक 15 मार्च 2020—फाल्गुन 25, शक 1941

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15 मार्च, 2020 (फाल्गुन 25, 1941)

क्रमांक 4433 /मप्रविस-15/विधान/2020.- मध्यप्रदेश विधान सभा के निम्नलिखित 06 निर्वाचित सदस्यों द्वारा विधान सभा के अपने स्थान से त्याग-पत्र दिये गये हैं, जिन्हें माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्वीकृत किये जाने के कारण मध्यप्रदेश विधान सभा में निम्नानुसार उक्त 06 स्थान रिक्त हो गये हैं :-

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक एवं नाम	सदस्यों के नाम
1. 15- ग्वालियर	श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
2. 19- डबरा (अ.जा.)	श्रीमती इमरती देवी
3. 28- बमोरी	श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया
4. 37- सुरखी	श्री गोविन्द सिंह राजपूत
5. 142-सांची (अ.जा.)	डॉ. प्रभुराम चौधरी
6. 211- सांवेर (अ.जा.)	श्री तुलसीराम सिलावट

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.